



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 पौष 1937 (श0)  
(सं0 पटना 24) पटना, सोमवार, 11 जनवरी 2016

---

विधि विभाग

अधिसूचना

6 जनवरी 2016

एस0ओ0 5, दिनांक 11 जनवरी 2016—विधि (न्याय) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक-ए0/ए0बी0-01/2000-3324/जे0, दिनांक-07.09.2000 की कंडिका संख्या-3 में बिहार राज्य विधि आयोग हेतु अंशकालीन सदस्यों के चयन (नियुक्ति) का उल्लेख है। सम्प्रति विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5635, दिनांक 03.09.2015 द्वारा बिहार राज्य विधि आयोग की कालावधि का विस्तार दिनांक 07.09.2015 से अगले तीन वर्षों के लिए किया गया है।

बिहार राज्य विधि आयोग के अंशकालीन सदस्यों की संख्या को 3 (तीन) निर्धारित करने की घटनोत्तर स्वीकृति देते हुए बिहार राज्य विधि आयोग, पटना के पत्रांक-वि0आ0स्था0(राज0)-06/2012-276, दिनांक 21.12.2015 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.09.2015 से अगले तीन वर्षों तक के लिए बिहार राज्य विधि आयोग की विस्तारित अवधि हेतु निम्नांकित तीन अंशकालीन सदस्यों का, इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से, चयन (नियुक्ति) किया जाता है:-

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| (1) प्रो0 डा0 ए0 लक्ष्मीनाथ | - उपकुलपति, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न्याय नगर, मीठापुर, पटना-800001           |
| (2) डा0 सैयद अली मोहम्मद    | - अनुबंधित प्राध्यापक, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना                           |
| (3) डा0 अंशुमन              | - अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, द्वारिका मंदिर रोड, पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड, पटना। |

(2) उपर्युक्त अंशकालीन सदस्यों का चयन (नियुक्ति) इस अधिसूचना की निर्गत की तिथि से आयोग के वर्तमान कार्यकाल अर्थात् 06.09.2018 तक सीमित रहेगा। यह चयन (नियुक्ति) विधि आयोग/राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

(3) अंशकालीन सदस्यों को आयोग की बैठक में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी का यात्रा भत्ता देय होगा। पटना स्थित आयोग के अंशकालीन सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक मो०-250/- (दो सौ पचास) रुपये परिवहन भत्ता देय होगा।

(4) अंशकालीन सदस्यों की बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक 1,000/- (एक हजार) रूपया मानदेय देय होगा।

(5) उक्त मानदेय राशि का विकलन बजट “मुख्य शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघु शीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल), उपशीर्ष-0006-विधि आयोग के अन्तर्गत-2801-व्यवसायिक और विशेष सेवाएँ” इकाई से होगा, जिसका विपत्र कोड एन-2014001140006 है।

इस शीर्ष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना होंगे।

(सं०सं०-ए०/ए०बी०-02/2007/46/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 24-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>